

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-04032025-261460
SG-DL-E-04032025-261460असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---------|---|----------------------------|
| सं. 82] | दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2025/फाल्गुन 13, 1946 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 434 |
| No. 82] | DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2025/PHALGUNA 13, 1946 | [N. C. T. D. No. 434 |

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 4 मार्च, 2025

फा. सं. 50(44)/डीसी/स्था0/2024/1487.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना सं० एस0ओ0 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

अथवा

(ख) जो एक जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) के पद हेतु भर्ती नियम

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | पदनाम | : | स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) |
| 2. | पदों की संख्या | : | 01 (2024) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर |
| 3. | वर्गीकरण | : | सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | : | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रुपये 19900-63200/-) |
| 5. | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद | : | गैर चयन |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | : | 18-25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीपः — आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। * यदि पद को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के द्वारा भरा जाना है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी। |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं | : | अनिवार्यः— (i) मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना, (ii) मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए।) जिसके लिए परिवहन विभाग द्वारा गठित बोर्ड द्वारा कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा जिसमें कम-से-कम दो राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे। (iii) मोटर कार चालक का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | | <p>तथा</p> <p>(iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p>टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अनुभव संबंधी योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप 2: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> |
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | : | नहीं |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | : | 02 वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए |
| 10. | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | : | पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा |
| 11. | यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है | : | <p>पदोन्नति :</p> <p>विभाग में हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वाले तथा ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रुपये 18000-56900/-) के समूह 'ग' कर्मचारियों में से; बशर्ते कि उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा गठित बोर्ड जिसमें कम-से-कम दो राजपत्रित अधिकारी शामिल हो, द्वारा आयोजित किए जाने वाले कौशल परीक्षण को उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>टीप :-</p> <p>जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है। | : | <p>पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0) — अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग के प्रमुख — सदस्य 3. उप-सचिव (श0विका0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | | टीप :- यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। |
| 13. | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | : | लागू नहीं |

दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राज कुमार, उप-सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPTT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th March, 2025

F. No. 50(44)/DC/Estt./2024/1487.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O.3532 dated 24.09.1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. Short title and commencement-

- (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Staff Car Driver (Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2025
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix-

The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.

4. Disqualification.-No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; **or**
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax-

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving-

Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delh

| Name of Post | Number of Posts | Classification | Pay Level in the Pay Matrix | Whether Selection Post/ Non-Selection Post | Age limit for direct recruits |
|-----------------------------------|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Staff Car Driver (Ordinary Grade) | 01 (2024) *subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level 2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix | Non-Selection | 18-25 years* (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority *In case of post being filled up by All-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years |

| Educational and other Qualification required for Direct Recruits | Whether age & Educational Qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of vacancies to be filled by various methods |
|--|---|------------------------------|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle) for which a skill test shall be conducted by a Board constituted by the Transport Department comprising of at least two Gazetted officers; (iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and (iv) Pass in 10th standard Note 1: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the DSSSB/ Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified | No | 02 years for Direct Recruits | By Promotion failing which by Direct Recruitment |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the DSSSB/ Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Casts or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them | | | |
|---|--|--|--|

| In case of Recruitment by Promotion/ deputation/ absorption grades from which Promotion/ deputation/ absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|--|
| 11 | 12 | 13 |
| <p>Promotion:</p> <p>From amongst Group 'C' employees in Level 1 (Rs. 18000-56900) in pay matrix with three years' regular service in the Grade and having Driving Licence of Light Motor Vehicle in the department, subject to passing of a skill test to be conducted by a Board constituted by the Transport Department comprising of at least two Gazetted officers</p> <p>Note:</p> <p>Where Juniors who have completed qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service</p> | <p>Group 'C' DPC for considering Promotion/ Confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Secretary/ Secretary (PWD) – Chairman 2. Head of the Department concerned – Member 3. Deputy Secretary (UD), GNCT of Delhi – Member <p>Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.</p> | Not applicable. |

By Order and in the Name of
the Lt. Governor, Delhi,

RAJ KUMAR, Dy. Secy.